

Speaking at Public Meeting Sitarganj, Uttarakhand

February 13, 2017

बन्धु, युवाओं और मेरे सितारगंज के सभी नागरिक बन्धु, आप सबको मैं नमन करता हूँ, इस देवभूमि को नमन करता हूँ | वास्तव में मेरे लिए एक तरीके से बहुत गर्व की बात है कि मेरी बड़ी बहन उत्तराखंड में बिहाई हुई है मुझे तो अपनी बहन के ससुराल में आने का मौका मिला है | बहुत छोटा था उम्र में जब पहली बार देहरादून आया था बहन की शादी में और वास्तव में तभी से उत्तराखंड ने हमें बहुत प्यार दिया, तभी से उत्तराखंड में फिर आने की बहुत चाहत रहती है | और मैं आज सौरभ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मौका दिया कि मैं आप सबसे मिल सकूँ, दो बातें आपकी सुनूँ, दो बातें मैं बता सकूँ | और वास्तव में जिस प्रकार से, जिस उम्मीदों से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण किया था, जिस अपेक्षाओं के साथ उन्होंने इस उत्तराखंड, सुन्दर उत्तराखंड को एक प्रकार से पिरोया था उस उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और विकास-विरोधी सरकार ने गत तीन वर्षों में जो अन्याय किया है उस अन्याय की पूर्ति के लिए आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है, सौरभ जी मैदान में उतरे हैं |

और मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि जिस संघर्ष में, जिस लड़ाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजय बहुगुणा जी ने अपने पद को भी त्याग कर दिया जिस संघर्ष के खिलाफ, जिस संघर्ष से उन्होंने रावत सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला था उसमें आज हम सबको मौका मिला है इस भ्रष्ट सरकार को घर बिठाने का और एक विकास से प्रेरित भ्रष्टाचारमुक्त, ईमानदार सरकार, एक निर्णायक सरकार जो आपका विकास कर सके |

आप सबने देखा गत तीन वर्षों में जो जो संभावनाएं थीं उत्तराखंड की उस को किस प्रकार से नज़र अंदाज़ किया गया | आज पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या नहीं हो सकता है उत्तराखंड में, आज जब भूमिगत ढांचे को देखें, मैं अभी अभी आ रहा था सभा स्थान तक पूरी सड़क टूटी हुई थी और यह सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है जिधर भी मैं उत्तराखंड में गया सड़कें टूटी हुईं, पर्यटकों के लिए सुविधाएं नहीं, यहाँ तक कि आप सबको चार धाम जाना हो उसके लिए भी राज्य सरकार ने कुछ काम नहीं किया | नितिन गडकरी जी ने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 11,700 करोड़ रुपये की लागत से लगने वाली चार धाम यात्रा की सड़क का निर्माण का काम शुरू किया है | और जब यह सड़क बनती है जब लोग विदेश और देश से चार धाम यात्रा के लिए यहाँ आते हैं तब हम सबको रोज़गार के अवसर मिलते हैं, स्वयं रोज़गार के अवसर मिलते हैं, पर्यटक आयेंगे तो लॉज चलेंगे, होटल चलेंगे, टैक्सी चलेगी, गाइड्स को काम मिलेगा, पंडित पुजारियों को काम मिलेगा | यहाँ के रहने वाले हर एक व्यक्ति को विकास की जो चाहत दिल में है जिस प्रकार से हम चाहते हैं यहाँ बिजली की व्यवस्था सुधरे, जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ पानी हर एक को मिले, जिस प्रकार से विजय बहुगुणा जी ने पहल की थी कि यहाँ पे रहने वालों को पट्टा मिल जाये अपनी ज़मीन का, जिस काम को गत तीन वर्ष में आधा-अधूरा हरीश रावत सरकार ने कर दिया इस सबको अगर पूरा करना है तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आये, विकास का काम करे और हमारे विजय बहुगुणा जैसे नेता हम सबको आशीर्वाद दे, हम सबको विकास की तेज़ गति से जोड़ने के लिए प्रेरित करे इसके लिए सौरभ को हमने आप सबके समक्ष भेजा है | भारी बहुमत से, साधारण विजय नहीं चाहिए, जैसे आपने विजय बहुगुणा जी को 40,000 वोटों से जिताया था, याद है कि नहीं? 40,000 वोटों से आपने विजय जी को जिताके सितारगंज से भेजा था वैसी ही आप सौरभ भाई को 40,000 से अधिक वोटों से जिताके भेज दीजिये |

यहाँ पे कई हमारे भाई बहन आये हैं जो बाहर विदेश से आके यहाँ पे बसे, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनके साथ सालों साल शोषण हुआ है, उनकी पीड़ा विजय जी समझते हैं, उससे भली-भांति अवगत हैं | मैं अभी अभी सुन रहा था कैसे एक काफी बड़ा वर्ग यहाँ पे विकास से वंचित रहा, पीड़ित रहा और प्रधानमंत्री मोदी जी का पक्का इरादा है कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए, कोई भी समुदाय का हो, कोई भी जाति धर्म का हो, जब तक पूरे समाज का सम्पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता |

और मैं सभी भाइयो बहनों को कहना चाहूँगा जो विजय बहुगुणा जी ने बात रखी फिर चाहे वह आपके ज़मीन के पट्टे की बात हो, चाहे आपको न्याय मिले आपके जो आरक्षण का विषय है उसमें न्याय पूर्ति हो, इन सब विषयों के ऊपर अगर किसी ने चिंता करनी है तो वह मात्र भारतीय जनता पार्टी विजय बहुगुणा जी और सौरभ बहुगुणा जी जिन्होंने वर्षों वर्षों तक आपके क्षेत्र को सेवा की है, आपके क्षेत्र में विकास किया है, आपके क्षेत्र में हर व्यक्ति, हर परिवार की चिंता की है | और आप देखें कितने सारे विषय जिसमें हमने पहल की भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, आज हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा घर होना चाहिए, मुझे अपनी मल्लिक्यत का घर बनना चाहिए इसकी चिंता 70 वर्षों में नहीं की गयी कि हर एक व्यक्ति को एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा घर जिसमें शौचालय हो, बिजली हो, सड़क हो, नजदीक में अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सेवा हो बुजुर्गों के लिए घर में | प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर लिया कि 2022, 15 अगस्त 2022 तक देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पे छत न हो, अच्छा शौचालय न हो, चौबीसों घंटे बिजली न मिले, अच्छी बच्चों को शिक्षा न मिले |

में जब आंकड़े देख रहा था तो आपको हैरानी होगी जब मैं बताऊँ आज भी उत्तराखंड में 20% लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, 20% लोग | आखिर उन बच्चों को जब दूसरे प्रदेश के बच्चों के साथ स्पर्धा में खड़ा होना होगा तो कैसे स्पर्धा करेंगे, कैसे उनकी शिक्षा सुनिश्चित होगी? हमने वादा किया है कि अगले दो वर्षों के अन्दर हर परिवार को बिजली व्यवस्था से जोड़ा जाएगा और हर परिवार को सस्ते दरों में बिजली मिले जिससे आपका भी घर एलईडी लाइटों से सुशोभित हो, कम बिजली का खर्चा हो और हर एक विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा का सामान्य अधिकार मिले बिना भेद के |

इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का हर नौजवान, हर युवक आत्मनिर्भर हो सके, अच्छी शिक्षा पाए, उसका कौशल विकास हो और जब वह अच्छी शिक्षा और कौशल से जाये तो पलायन न करना पड़े उसको उत्तराखंड में अवसर मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा कुछ कारोबार करने को मिले | इसलिए मुद्रा योजना के तहत सस्ते दरों पे हर व्यक्ति को लोन मिल सके, हर व्यक्ति को अपना जीवन सँवारने का मौका मिले इसके लिए लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये मुद्रा योजना के तहत बिना जामिनदार के, बिना कोई कोलैटरल सिक्यूरिटी के आपको मिल सकती है | हर छोटा दुकानदार, हर महिला, हर युवा इस कम ब्याज के दर के लोन से अपने जीवन को बढ़ा सकता है |

अभी अभी एक बैंक की अध्यक्षता परसों मुझे मुंबई में मिली वह बता रही थी कैसे एक महिला ने मात्र 15,000 रुपये का लोन मुद्रा लोन के तहत लिया और एक सिलाई की मशीन से काम शुरू करते करते डेढ़ वर्ष के भीतर उन्होंने एक सिलाई को ट्रेनिंग, कौशल विकास करने का एक छोटा सेंटर खोल दिया, मुहल्ले की सब महिलाओं को सिलाई से कपडे बनाने का काम सिखा दिया | और आज वह लगभग 14-15 महिलाओं को रोजगार देती है और 14-15 घरों को एक अच्छी

आमदनी होनी शुरू हो गयी, डेढ़ वर्ष के भीतर भीतर मात्र 15,000 के लोन से शुरू करके | इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति जब घर लेने जाता है तो उसको 8.5-9% ब्याज पे आज घर मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 2.5%, 2-2.5% पे 15-20 वर्षों का लोन मिलके हर एक व्यक्ति अपना खुद का घर खुद अपनी मल्लिकयत के घर में रहे यह सुनिश्चित करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है जो उत्तराखंड में हर एक व्यक्ति, हर परिवार के लिए हम लागू करेंगे |

जो हमारे किसान भाई बहनों को इतने वर्षों तक कभी बाढ़ आई, कभी सूखा पड़ा, जितना कष्ट सहना पड़ा, किसानों का जो आज फसली ऋण है छोटे सीमान्त किसानों का उस लोन को पूरी तरीके से माफ़ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी यह आने वाली उत्तराखंड की सरकार करेगी | और एक पूरी जो इस इलाके में बाढ़ की समस्या बार बार आती है, जिस प्रकार से बाढ़ के कारण आप सबको तकलीफ उठानी पड़ती है | मैं समझता हूँ यह कोई असंभव नहीं है कि हम उसके लिए कोई समाधान कर सकें, बाढ़ के काम के लिए अच्छे बाँध बनें, बाढ़ में जितना पानी आता है उसका आंकलन लेके उस पानी के लिए रास्ता बनाया जाये जिससे बाढ़ से शहर और गावों को नुकसान न हो | यह काम संभव है इसके लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की चिंता करे, जो विषय के बारे में समझदारी से उसका समाधान खोजे और जब समाधान सामने आये तो ईमानदारी से उसको लागू करें |

और जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को भ्रष्टाचार से लिस रखा फिर चाहे वह 1,86,000 करोड़ का कोयला का घोटाला हो, चाहे वह 1,76,000 करोड़ का 2G Spectrum का घोटाला हो और वास्तव में उनके घोटालों की श्रंखला ऐसी थी कि आसमान से लेके ज़मीन तक कोई हिस्सा नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार करने में | और जब ध्यान आया कि लाखों करोड़ से भी पेट नहीं भरता तो ज़मीन के भीतर भी कोयले

में भ्रष्टाचार किया | प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, हर एक सरकारी ... या हर एक सरकारी आवंटन को एक पारदर्शी, ईमानदार नीलामी के तहत करके जो लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार, जो लाखों करोड़ का नुकसान कांग्रेसी सरकारों ने किया था उस सबको रोक के एक पारदर्शी तरीके से देश के संसाधनों को नीलामी के तहत लोगों को दिया और वह नीलामी से आने वाला राजस्व जनता की सेवा में लगेगा, पूरा पैसा जनता के कामों में आएगा |

पंडित दीन दयाल उपाध्याय हमें सिखाके गए थे कि भारत के जो संसाधन हैं उसका पहला अधिकार समाज में गरीब से गरीब व्यक्ति का रहे और यहाँ धर्म और जाति के नाम पे भेदभाव के बगैर पूरे समाज का जबतक सम्पूर्ण विकास नहीं होगा तबतक इस क्षेत्र में रहने वाले हर भाई बहन महिला का जीवन सुधर नहीं सकता है | इसलिए सबका साथ, सबका विकास इस प्रतिबद्धता से, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल को शुरू किया और मात्र ढाई-तीन वर्षों में ही आज विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था, सबसे मज़बूत अर्थव्यवस्था इस देश के हर नागरिक के जीवन को छूने वाली एक एक योजना, एक एक कार्यक्रम के साथ जनता की सेवा में उतरी है और जिस उत्तराखंड में इतनी संभावनाएं थीं, इतने रोजगार के अवसर आ सकते थे, उद्योग आ सकता था, लघु उद्योग आ सकता था, पर्यटन बढ़ सकता था, किसानों के उत्पादन बढ़ सकती थी |

इन सब विषयों की चिंता करने के लिए मैं समझता हूँ आप सबको 15 तारीख को सुबह 10 बजे के पहले और मैं यह 10 बजे की लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ | 10 बजे के पहले यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपना वोट डालने जायेगा, कमल के निशान के बटन को दबाएगा लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी 10 बजे खत्म नहीं होती है भाइयो बहनों, हमारी ज़िम्मेदारी 10 बजे शुरू होती है | 10 बजे के पहले यहाँ

बैठे हजारों लोग अपना वोट सौरभ को देके, जिताके, कमल पे बटन दबाके भेजेंगे लेकिन साथ ही साथ 10 बजे से शाम तक हम सब यह जिम्मेदारी उठाएंगे, यह बीड़ा उठाएंगे कि हर एक घर में जाके, अपने मुहल्ले के हर घर में, हमारे सब रिश्तेदारों को, हमारे साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और सौरभ को पूर्ण बड़ी बहुमत से विजयी करने के लिए हर व्यक्ति को बाहर निकालेंगे और पूरे इस क्षेत्र में ऐसी भारी बहुमत से आप सौरभ को जिताइये कि पूरा देश देखे कि यह सितारगंज के अब विकास का समय आ गया है ।

और जो प्यार आज सितारगंज ने मुझे दिया है, मुझे बताया यह तो सिर्फ एक Assembly Constituency की बैठक है, कांग्रेस ने तो पूरे जिल्ले की बैठक की और यह मैदान नहीं भर पाए थे । और आज आपने जो प्यार दिया है सौरभ भाई को, विजय जी को और मुझे जो आमंत्रित किय है, मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणी रहूँगा । और मैं समझता हूँ विजय यात्रा जब आपकी निकलेगी तब आप जरूर मुझे भी उसमें शामिल करने के लिए बुलाएँगे । लेकिन जो शहीद उधम सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी ने पूरे भारत को आजाद करने में अपना बलिदान दिया और जब ब्रिटिश जेल में उनको पूछा गया तो वह भागे नहीं उन्होंने कबूल किया कि हाँ मैंने देश की आजादी के लिए काम किया है वैसे ही अब उत्तराखंड की आजादी के लिए

मुझे तो लग रहा है कि चुनाव हम जीते हुए हैं । चुनाव आज से 15 तारीख का फैसला तो आज ही आप सबने यहाँ पे तय कर लिया लेकिन 15 तारीख को कोई चूके नहीं और पूरे उधम सिंह नगर में हर सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और जिस भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने इस विदेश को विकास से वंचित रखा, जिस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी सीट से लडे, उसको दो दो

सीटों पे लड़ने की आज ज़रूरत पड़ गयी क्योंकि डर गए कि मैं जीत पाऊँगा कि नहीं ।

किच्छा में जितने आपके दोस्त रहते हैं, जितने आपके रिश्तेदार रहते हैं, किच्छा में भी यह सन्देश पहुँच जाये कि भारी बहुमत से भाजपा को जिताना है और रावत जी को बताना है कि आपके भ्रष्टाचार से जनता खुश नहीं है, आपके विकास-विरोधी काम से जनता खुश नहीं है, आपने जिस प्रकार से विजय बहुगुणा की बेइज्जति की, जिस प्रकार से रावत जी ने जो विजय बहुगुणा जी ने काम शुरू किये थे उसका सबका जो अन्याय किया, उस सबका जो नज़र अंदाजी की उसका जवाब पूरा उधम सिंह नगर देगा और एक एक सीट पर भाजपा जीत के पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार उत्तराखंड के एक एक परिवार की सेवा में उतरेगी, इस विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।